



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19—नवम्बर 25, 2005 (कार्तिक 28, 1927)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19—NOVEMBER 25, 2005 (KARTIKA 28, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

दिनांक 8 नवम्बर 2005

नई दिल्ली-110004, दिनांक 2 नवम्बर 2005

सं. ए-39011/43/01-प्रशासन--श्री संदीप कुमार पॉल, राष्ट्रपति के सचिव के प्रधान निजी सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये।

आर. एस. राणा, अवर सचिव, (प्रशासन)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. आरएस./1335/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री सरन कुमार भटनागर, वरिष्ठ संपादक 31 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आरएस./6(i)2005/53-कार्मिक--श्री अशोक कुमार आर्य (आई. आर.एस.-सी.सी.ई./1984), वर्तमान में अहमदाबाद में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के रूप में तैनात, को राज्य सभा सचिवालय में राज्य सभा के माननीय सभापति के वैयक्तिक स्टाफ में रुपये 14,300-18,300/- के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया है।

2. श्री अशोक कुमार आर्य की नियुक्ति राज्य सभा के वर्तमान सभापति के विवेकाधीन है और वह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी। उनकी नियुक्ति राज्य सभा सचिवालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 नवम्बर 2005

सं. आरएस./2617/स्था.(सामान्य)--इस सचिवालय में संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) डा. (श्रीमती) अलका नन्दा दास को 3 नवम्बर, 2005 (अपराह्न) से इस सचिवालय में उनके कर्तव्य से मुक्त किया जाता है ताकि वह

सी आई एस एफ में सीनियर कमान्डेंट के नए कार्यभार को ग्रहण कर सकें। उन्हें 7.11.2005 से 18.11.2005 तक 12 दिन की अर्जित छुट्टी, छुट्टी से पूर्व 4.11.2005 से 6.11.2005 तक तथा छुट्टी के पश्चात् 19.11.2005 से 20.11.2005 तक के अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित, प्रदान की गई है।

एनेस मोमिन जॉर्ज, निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2005

सं. 20/जी/2721-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री ए. के. मित्रा, भा. पु. से. (उ. प्र.-70) को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में दिनांक 3 नवम्बर, 2005 के अपराह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2005

सं. एफ.6(1855)/2002-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 31.8.2005 के आदेश सं. 13019/75/पीएफ-आई.ई.एस. के अनुसरण में, आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी श्री एम. एन. लोथे ने दिनांक 5.10.2005 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 14300-400-18300/- रु. के वेतनमान में निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2005

सं. ए-11013/67/2004-प्रशासन-3--राष्ट्रपति, योजना आयोग के सीएसएसएस कैडर के ग्रेड 'सी' आशुलिपिक श्री दीपक खटवानी को सदस्य (श्री बी. एन. सुगन्धर) योजना आयोग के निजी स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के रूप में 6500-200-10,500/- रुपये में वेतनमान में दिनांक 13.09.2005 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर सदस्य योजना आयोग की इच्छा अथवा उनके द्वारा कार्यालय त्यागने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2005

सं. ए-32014/4/2002-प्रशासन-5--सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के कोटा हेतु विभागीय परीक्षा, 2003 के पद के स्थान पर योजना आयोग के अनुभाग अधिकारी के रूप में नामांकन हो जाने के फलस्वरूप, योजना आयोग के नियमित सहायक, श्री राजेश कुमार सिंह को दिनांक 17 अक्टूबर, 2005 की पूर्वाह्न से योजना आयोग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. के. परमार, अवर सचिव

दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. ए-19(767)/98-प्रशासन-2--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्रीमती सुषमा (आई ई एस, ग्रेड 3 अधिकारी), योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी दिनांक 31.10.2005 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना कार्यभार दिनांक 31.10.2005 (अपराह्न) से त्याग दिया है।

आर. के. परमार, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

कोलकाता-700020, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. जी.-19012(1)/2005-प्रशा.--(कोल.)--विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता में केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता के पद पर कार्यरत श्री सच्चिदानंद गुप्ता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

जे. खोसला, संयुक्त सचिव व विधि सलाहकार/क.प्र.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अक्टूबर 2005

सं. ए-19013/2/2002-प्र.सु.(प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री के. योगनरसिम्हन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2005-सी.एस.1(i) दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय (सी.एस.एस.) के चयनित ग्रेड में वर्ष 1997 की चयनित सूची में शामिल करने के परिणामस्वरूप दिनांक 1.7.1997 से प्रभावी सी.एस.एस.(उप सचिव) के चयनित ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी. टी. भुटिया, अवर सचिव

दिनांक 28 अक्टूबर 2005

सं. ए-19012/1/2005-प्र.सु.(प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री ए. बी. प्रसाद को प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत आता है, में दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. टी. भुटिया, अवर सचिव

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

सं. ए-13017/27/2005-अ.भा.से.(1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पंजाब सरकार तथा ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के नाते गृह मंत्रालय को सहमति से केन्द्रीय सरकार एतद्वारा

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग की श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.आर. : 92) की, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में चण्डीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत संयुक्त सचिव (वित्त) के रूप में नियुक्ति हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करती है। यह प्रतिनियुक्ति, श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

के. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2005

सं. ए-14012/02/2005-अ.भा.से.(3)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र.सं., नाम, बैच तथा स्थायीकरण की तिथि

1. श्री पी. बी. पटनी, 1994--26.11.2000

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

सं. 5/पीएफ/2005--राष्ट्रपति, श्री राजेश सिंह पुंडीर को 17 मई, 2005 के पूर्वाह्न से विदेश राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) के कार्यालय में प्रथम निजी सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री राजेश सिंह पुंडीर की नियुक्ति विदेश राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) के विवेकाधीन होगी और उनकी कार्यावधि के साथ समाप्त हो जाएगी।

2. श्री राजेश सिंह पुंडीर को 17 मई, 2005 को पूर्वाह्न में विदेश राज्य मंत्री के कार्यालय में प्रथम निजी सहायक का कार्यभार संभाल लिया।

राजेश लाल, प्रशासनिक अधिकारी (पी एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2005

सं. क्यू/पी ए-1/47/2005--राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01 सितम्बर, 2005 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

क्र.सं., अधिकारी का नाम, वर्तमान पद तथा प्रोन्नति के बाद ग्रेड

1. श्रीमती पार्वती सेन व्यास, भा.वि.से. के ग्रेड-III—भा.वि.से. के ग्रेड-II

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 1 सितम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का

कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का पदभार संभाल लिया है।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 30 सितम्बर 2005

सं. क्यू/पी ए-1/48/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारतीय राजदूतावास, रोम में राजदूत श्री हिमाचल सोम, 30 सितम्बर, 2005 के अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

सं. क्यू/पी ए-1/49/2005--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारतीय राजदूतावास, ब्रसेल्स में कौंसुलर श्री टी. डी. अग्रवाल, 30 सितम्बर, 2005 के अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 3 अक्टूबर 2005

सं. क्यू/पी ए-1/50/2005--भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-IV के अधिकारी श्री जे. आर. शर्मा ने 30 सितम्बर, 2005 के अपराह्न से केन्द्रीय लोक सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी/संवर्ग)

दिनांक 4 अक्टूबर 2005

सं. क्यू/पी ए-1/51/2005--राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 01 अक्टूबर, 2005 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-1 में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

क्र.सं., अधिकारी का नाम, वर्तमान पद तथा प्रोन्नति के बाद ग्रेड

1. श्रीमती आर. के. भाटिया, भा.वि.से. के ग्रेड-II—भा.वि.से. के ग्रेड-I

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-1 में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 1 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का पदभार संभाल लिया है।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 10 अक्टूबर 2005

सं. क्यू/पी ए-1/52/2005--राष्ट्रपति, वर्तमान समय में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 06 सितम्बर, 2005 की पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

क्र.सं., अधिकारी का नाम, वर्तमान पद तथा प्रोन्नति के बाद ग्रेड

1. श्री ए. एम. गोंडाने, भा.वि.से. के ग्रेड-IV—भा.वि.से. के ग्रेड-III

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 06 सितम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का पदभार संभाल लिया है।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

सं. डी-3/460/सीएफ-47/2005—भारत के राष्ट्रपति मालदीव गणराज्य के कौमुल के रूप में श्री अब्दुल लतिफ गसिम की तिरुवनन्तपुरम में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री लतिफ गसिम के कौमुल क्षेत्राधिकार में केरल राज्य शामिल है।

पी. पी. सरकार, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 24 अक्टूबर 2005

सं. डी-3/460/सीएफ-30/2005—भारत के राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र रतिलाल पारिख को तत्काल प्रभाव से मुंबई में जांबिया गणराज्य का मानद कौंसल नियुक्त करते हैं।

श्री सुरेन्द्र रतिलाल पारिख के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा।

पी. पी. सरकार, प्रोटोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 2005 की (फा. सं. ए-19013/5/2005-प्रशासन-1 क)---राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव श्री बी. बी. शर्मा को, जो गृह मंत्रालय में इन-सीटू आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे, दिनांक 30.9.2005 से 31.12.2005 तक वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री बी. बी. शर्मा की प्रधान निजी सचिव के रूप में पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें अनिश्चित रूप से काम करते रहने अथवा उस पद पर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आर. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2005

सं. 8/4/03-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार श्री एम. एस. रहमान, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली को वरिष्ठ टीआईए/कईआई को 10,000-15,200/-

रुपए के वेतनमान में 27 जुलाई, 2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. 8/4/03-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार श्री पी. के. भुई, संयुक्त निदेशक, रक्षा मंत्रालय को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 12,750-16,500/- रुपए के वेतनमान में 30 मार्च, 2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता में सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 4 अक्टूबर 2005

सं. 8/4/2003-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में उप-रजिस्ट्रार, श्री डी. के. खन्ना को प्रतिनियुक्ति आधार पर 12,750-16,500/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 29 अगस्त, 2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ में सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. 8/4/2003-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री जे. के. अरोड़ा को प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 22 अगस्त, 2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. 8/4/2003-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में अनुभाग अधिकारी श्री उदय पाल सिंह को प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 8 सितम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, मुंबई में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. पीएफसीए(242)प्रशा.1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप भारतीय लागत लेखा सेवा के अधिकारी, वर्तमान में वित्त

मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक (लागत) श्री के. सी. कोहली 31 अक्टूबर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 8 नवम्बर 2005

सं. ए. 32014/2/2005/प्रशा.1--इस विभाग की दिनांक 3, 5, व 7 अक्टूबर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के अनुक्रम में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में की गई अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के तहत की जाती है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति 'श्री कैलाश चन्द्र व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य' द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर की गई याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के फ़ैसले की शर्तों के अधीन होगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर 2005

सं. 28/2005 (सं. ए-42011/6/2003-ई-1)--संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2003 के आधार पर वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके नामांकन के फलस्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थायी सहायकों को उनके सामने उल्लिखित तारीखों से वाणिज्य विभाग के संवर्ग में अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंक सं.	तैनाती	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री शंख राय	चौथा	वाणिज्य	22.09.05 (पूर्वाह्न)
2.	श्री नीरज सचदेवा	आठवां	वाणिज्य	21.09.05 (अपराह्न)
3.	श्री जे. श्रीराम मूर्ती	चौबीस	वाणिज्य	23.09.05 (पूर्वाह्न)
4.	श्री प्रमोद कुमार साहू	सैंतालिस	वस्त्र मंत्रालय	21.09.05 (पूर्वाह्न)
5.	श्री वी. श्रीधर	एक सौ एक	डीजीएफटी	21.09.05 (पूर्वाह्न)
6.	श्री सुभद्रत कर्माकर	एक सौ नौ	वाणिज्य मंत्रालय	23.09.05 (पूर्वाह्न)
7.	श्री इन्दर जीत	दो सौ ग्यारह	वस्त्र मंत्रालय	21.09.05 (पूर्वाह्न)
8.	श्री कुलदीप कुमार	दो सौ चौदह	डीजीएफटी	जिस तारीख से वे कार्य-भार ग्रहण करेंगे।

2. के. स. से. के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उक्त अधिकारियों की यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष श्री कैलाश चन्द्र एवं अन्य बनाम केन्द्र सरकार एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के निर्णय के अधधीन होगी।

अनुराग सबसेना, निदेशक

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2005

सं. 61/2005 (ए-19011/12/2000-स्था.)--वस्त्र मंत्रालय में श्री सुधीर भार्गव, आई ए एस (राजस्थान : 79) ने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के अपने कार्यकाल के पूरा होने के फलस्वरूप अपना पदभार 24 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से छोड़ दिया है और उनकी सेवाएं राजस्थान सरकार को सौंपी जाती हैं।

चन्द्र भान, निदेशक

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2005

सं. 3/15/2005-स्था.--मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 अगस्त, 2005 के पत्रांक 17/2/2005-ई.ओ.(एस.एम.-1) के अनुसरण में सुश्री अजिता बाजपेयी पाण्डे आई.ए.एस. (एम.पी. : 81) को 6 अक्टूबर 2005 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

विनोद कुमार, निदेशक

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

सं. 12/13/2003-एसओ--इस मंत्रालय की दिनांक 14 जनवरी, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना की निरन्तरता में, राष्ट्रपति कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, श्री हरभजन सिंह, भा. प्र. से. (उ. प्र. : 83) की कार्यावधि को 8.11.2005 से 31.1.2006 तक बढ़ाते हैं।

ए. के. ज्योतिषी, निदेशक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

सं. 2-64/2001-एफई--सुनम्य पूरक योजना के अंतर्गत डा. (श्रीमती) मालविका रे वैज्ञानिक 'सी' की प्रोन्नति पर राष्ट्रपति ने उन्हें 1.8.2005 से आगामी आदेश होने तक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून में 12,000-16,500/---रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर सहर्ष नियुक्त किया है।

2. डा. (श्रीमती) मालविका रे की प्रोन्नति होने पर 10,000-15,200/---रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' का जो निचला पद रिक्त हुआ है वह,

वैज्ञानिक 'डी' के पद पर उनकी प्रोन्नति की तारीख से समाप्त हो जाएगी।

जे. एल. चुध, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. ए. 11011/1/2003-पी-1--पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर श्री विजय कुमार मिनोचा का चयन होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने उन्हें 29.9.2005 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक तीन वर्ष की अवधि के लिए वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर (वेतनमान 16,400-450-20,000/-रु.) सहर्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित का. जा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 5.1.1994 के तहत नियंत्रित किया जाएगा।

कबीन्द्र जोशी, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2005

सं. ए. 11011/1/2003-पी-1--पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर श्री योगेश शर्मा का चयन प्रतिनियुक्ति आधार पर होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने उन्हें 12.9.2005 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक तीन वर्ष की अवधि के लिए वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर (वेतनमान 16,400-450-20,000/-रु.) सहर्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित का. जा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 5.1.1994 के तहत नियंत्रित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की अधिसूचना सं. ए-12012/3/90 (जी पी डी) एन आर सी डी-1, दिनांक 7.10.2005 की अधिसूचना को अधिक्रान्त करती है।

कबीन्द्र जोशी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

सं. ए. 11018/2/2004/प्रशासन-1/स्थापना-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, श्री फूल सिंह, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी जो इस समय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (पुस्तकालय) का पद धारण किए हुए हैं, को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 23.9.2005 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. आर. ए. नायर, अवर सचिव

सं. ए. 11013/01/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री डी. एस. मूर्ति को दिनांक 8 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अम्बुमणि रामदास) के वैयक्तिक स्टाफ में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री डी. एस. मूर्ति को विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्ति सहकालिक आधार पर अथवा मंत्री के प्रसाद पर्यन्त अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, होगी।

पी. आर. ए. नायर, अवर सचिव

दिनांक 27 अक्टूबर 2005

सं. ए. 32013/2/2005-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4.10.2005-सी. एस.-I के तहत, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति के लिए वर्ष 1996 और 1997 की सलेक्ट सूची में उनका नाम शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने निर्दिष्ट तारीख से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सलेक्शन ग्रेड में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है :--

1. श्री अमर लाल मखीजानी (एसएल-1996)--1.7.1996 से
2. श्री शिव भगवान (एसएल-1996)--1.7.1996 से
3. श्री डी. आर. शर्मा (एसएल-1997)--1.7.1997 से
4. श्री यू. सी. नांगिया (एसएल-1997)--1.7.1997 से

पी. आर. ए. नायर, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

सं. ए. 12025/167/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. नितिन एम. को 24.8.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. नितिन एम. को उक्त तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, त्रिवेन्द्रम के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2005

सं. 12023/3/2002-स्था.5(खण्ड-2)--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार के सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (एग्रोनोमी); श्री सुधीर सिंह को 17 अक्टूबर, 2005 से 3 वर्ष की अवधि तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो,

प्रतिनियुक्ति के आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के एन आर एम प्रभाग में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एन आर एम) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

सं. ए-12025/5/2004/प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार गुप्ता को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में 21 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति पर सहायक आयुक्त (डेयरी विकास) नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2005

सं. ए-12022/01/2005-स्थापना-I--राष्ट्रपति, संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से अगले आदेशों तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अनिल कुमार झा	14.09.2005 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती ई. रीटा	14.09.2005 (पूर्वाह्न)
3.	श्री शिवकांत कुमार	21.09.2005 (पूर्वाह्न)
4.	श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	21.09.2005 (पूर्वाह्न)
5.	श्री श्रीभगवान पाण्डेय	21.09.2005 (पूर्वाह्न)
6.	श्री बिपिन कुमार हेम्ब्रम	21.09.2005 (पूर्वाह्न)

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में इन व्यक्तियों की नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के परिणाम के अधीन होगी।

3. इस मंत्रालय के दिनांक 28.09.2005 की पूर्व की समसंख्यक अधिसूचना का अधिकरण किया जाता है।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 24 अक्टूबर 2005

सं. ए-32013/1/95-स्थापना-II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री संजय कुमार को इस मंत्रालय में 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में 4.10.2005 (पूर्वाह्न) से निजी सचिव (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/95-स्थापना-II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री पी. एस. प्रसन्न कुमार को इस मंत्रालय में 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में 7.10.2005 (पूर्वाह्न) से निजी सचिव (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 25 अक्टूबर 2005

सं. ए-32013/2/2005-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.9.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2005-सीएस-I (i) और दिनांक 13.10.2005 के आदेश सं. 4/12/2001-सीएस-I के अनुपालन में उप सचिव (तदर्थ) के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) (उप सचिव) के चयन ग्रेड की चयन सूची में शामिल किया जाता है:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची	चयन सूची में शामिल किए जाने की तारीख
1.	सुश्री गायत्री शर्मा	1996	01.07.1996
2.	श्री बी. जे. मेनन	1997	01.07.1997

2. राष्ट्रपति ऊपर उल्लिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से 12000-375-16500/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) संवर्ग में नियमित आधार पर उप सचिव नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

सं. ए-32011/10/2005-स्था-I--संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के सी.एस.एस. काडर के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड-4 अधिकारियों (सहायकों) को उनके नामों के अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में समावेश के फलस्वरूप सी. एस.एस. काडर में 20 सितम्बर, 2005 से 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	श्री पंकज कुमार
2.	श्री सुप्रिया रंजन दत्त
3.	श्री राजेश कुमार
4.	श्री परवीन जरगार
5.	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

1	2
6.	श्री समी अहमद खान
7.	श्री अभिमन्यु साहू
8.	श्री नंदन एन.
9.	श्री अजीजुद्दीन

2. इन व्यक्तियों की सी.एस.एस. के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष श्री कैलाश चन्द्र और अन्य द्वारा दाखिल रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 बनाम भारत संघ और अन्य के परिणाम के अधधीन होगी

के. के. मिश्रा, अवर सचिव

सं. ए. 32011/10/2005-स्था.-1--संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 के परिणाम के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के सी.एस.एस. काडर के श्री कुंदन कुमार सहायक को वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में उनके नाम के समावेश के परिणामस्वरूप 28 सितम्बर, 2005 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) में 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुंदन कुमार की सी.एस.एस. के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष श्री कैलाश चन्द्र और अन्य द्वारा दाखिल रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 बनाम भारत संघ और अन्य के परिणाम के अधधीन होगी।

के. के. मिश्रा, अवर सचिव

सं. ए. 32011/10/2005-स्था.-1--संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) के सी.एस.एस.एस. काडर के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को, उनके नामों के अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में समावेश के फलस्वरूप सी.एस.एस. काडर में 20 सितम्बर, 2005 से 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1.	सुश्री नेहा मेहरा
2.	सुश्री स्नेह लता

अन्य द्वारा दाखिल रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 बनाम भारत संघ और अन्य के परिणाम के अधधीन होगी।

के. के. मिश्रा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 16011/2/2002-एससीडी-4--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16011/2/2002-एससीडी-4 तारीख 19.7.2002 का आंशिक आशोधन करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सेवा राम को, श्री पी. नारायण मूर्ति के स्थान पर, तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में आधिकारिक निदेशक नियुक्त करते हैं।

हसीब अहमद, निदेशक

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 अक्टूबर 2005

सं. ए-39013/1/2005-प्रशासन-1--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री पी. शिव प्रसाद रेड्डी, (कर्मचारी कोड सं. 4209), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक राज्य एकक, बंगलौर का वैज्ञानिक-'डी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2005 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-1)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. 3690/एनआईसी/2005-का.व.स्था.-2--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एन. रमेश, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर "एस बी" (कर्मचारी कोड सं. 3690) को दिनांक 01.09.2005 से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सेवा से निष्कासित करते हैं। उनकी दिनांक 07.10.2000 से 31.08.2005 तक की अनुपस्थिति अवधि को वित्तीय नियमावली-17 के अंतर्गत अकार्य दिवस माना जायेगा।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-2)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

सं. ई(ओ)III-2005/आरएन/14--इरकॉन में स्थायी समाहन के परिणामस्वरूप श्री सुधीर माथुर, भारतीय रेल लेखा सेवा ने 31.10.2005 (अपराह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

2. यह बोर्ड के 06.09.2005 की अधिसूचना सं.ई(ओ)III-2005/आरएन/14 के अधिक्रमण में है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव रेलवे बोर्ड
एवं पदेन अपर सचिव

इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से 30 सितम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	श्री जे. के. येरा	मुख्य अभियंता
2.	श्री एस. सी. मित्तल	सहायक निदेशक

आर. सी. अरोरा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2005
सं. 24/2005-मि. सं. ए-38012/1/2005-प्रशा.1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. ए-38011/2/2005-भा.सू.से.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एन एफ एस जी) और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/चयन ग्रेड/उच्चतर ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीखों से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	धारित पद	कार्यालय	इर्ला सं.	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती शकुन्तला महावल	प्रधान सूचना अधिकारी	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली	5442	31.7.2005 (अपराह्न)
2.	श्री बलराज सूरी	अपर प्रधान सूचना अधिकारी	पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली	4972	31.7.2005 (अपराह्न)
3.	श्री आर. पी. एस. वर्मा	निदेशक	गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग, नई दिल्ली	7767	31.7.2005 (अपराह्न)
4.	श्री आर. बी. विश्वकर्मा	संयुक्त निदेशक	समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली	8092	31.7.2005 (अपराह्न)
5.	श्री आर. आर. राव	उप प्रधान सूचना अधिकारी	पत्र सूचना कार्यालय, हैदराबाद	8167	31.8.2005 (अपराह्न)

2. प्रत्येक अधिकारी ने उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से उनके द्वारा धारित पद का कार्यभार त्याग दिया है।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

PRESIDENT SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 2nd November 2005

No. A-39011/43/01-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Sandip Kumar Paul, Principal Private Secretary to the Secretary to the President, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st October, 2005

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st October 2005

No. RS/1335/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Saran Kumar Bhatnagar, Senior Editor retired from service with effect from the afternoon of the 31st October, 2005.

P. R. GUHA ROY, Director

The 8th November 2005

No. RS/6(i)/2005/53Perl.—Shri Ashok Kumar Arya IRS-CCE/1984), presently posted as Commissioner of Central Excise (Appeals), Ahmedabad has been appointed on deputation basis in the Rajya Sabha Secretariat as Officer on Special Duty in the personal staff of Hon'ble Chairman, Rajya Sabha in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300/-, until further orders.

2. The appointment of Shri Ashok Kumar Arya is at the discretion of the present Chairman, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office. His appointment will be with effect from the date of his joining in the Rajya Sabha Secretariat.

P. R. GUHA ROY, Director

New Delhi-110001, the 3rd November 2005

No. RS/2617/Estt.(G).—Dr. (Smt.) Alka Nanda Dash, Joint Director (Security) in this Secretariat is relieved of her duties in this Secretariat w.e.f. 3rd November, 2005 (AN) to take up the new assignment of Senior Commandant in the CISF. She has been granted 12 days Earned Leave w.e.f. 7.11.2005 to 18.11.2005 with permission to prefix from 4.11.2005 to 6.11.2005 and to suffix from 19.11.2005 to 20.11.2005 (being holidays).

(SMT.) AGNES MOMIN GEORGE, Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th November 2005

No. 20/G/2721-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri A.K. Mitra, IPS (UP:70), as Special Secretary in the

Ministry of Home Affairs, with effect from the afternoon of the 3rd November 2005, until further orders.

J.B. SHARMA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 7th October. 2005

No.F.6(1855)/2002-Adm.-I.—In pursuance of Deptt. of Economic Affairs' Order No. 13019/75/PF-IES dated 31.8.2005, Shri M. N. Lothe, NFSG officer of IES has assumed charge as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs.14300-400-18300 w.e.f. 5.10.2005 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 7th October 2005

No.A-11013/67/2004-Adm.III.—The President is pleased to appoint Sh. Deepak Khatwani, Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Planning Commission as 1st P.A. in the personal staff of Member (Sh. B.N. Yugandhar), Planning Commission in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on deputation basis w.e.f.13.09.2005 (FN) till Member, Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 21st October, 2005.

No.A-32014/4/2002-Adm.V.—Consequent upon his nomination to Planning Commission as Section Officer against the Departmental Examination, 2003 Quota of Section Officers' Grade of CSS, Shri Rajesh Kumar Singh, a regular Assistant (CSS) of the Planning Commission, is appointed as Section Officer on regular basis in Planning Commission w.e.f the forenoon of 17th October, 2005.

R. K. PARMAR, Under Secy.

Th 31st October 2005

No.A.19(767)/98-Adm.II.—On attaining the age of superannuation, Smt. Sushma (Grade III Officer of IES), Senior Research Officer, Planning Commission retires from Government Service with effect from the afternoon of 31.10.2005 Consequently, she has relinquished charge of her post w.e.f. 31.10.2005 (AN).

R. K. PARMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

Kolkata-700029, the 31st October 2005

No.G-19012(1)/2005-Admn.(Kol).—On attaining the age of superannuation, Shri Sachidananda Gupta, Central

Government Advocate in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Kolkata stands retired from Government Service with effect from the 31st October, 2005 (afternoon).

J. KHOSLA, Jt. Secy. & Legal Adviser/in-charge

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS
AND PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 26th October 2005

No.A-19013/2/2002-AR(Ad.I).—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 1997 for the Selection Grade of Central Secretariat (CSS) vide Department of Personnel and Training Office Memorandum No.4/10/2005-CS.I(i) dated 15th September 2005, the President is pleased to appoint Shri K. Yoganarsimhan, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis with effect from 1.7.97.

P. T. BHUTIA, Under Secy.

The 28th October 2005

No.A-19012/1/2005-AR (Ad .I).—The President is pleased to appoint Shri A.B. Prasad IAS (BH:76) as Joint Secretary in the Administrative Reforms Commission under the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, with effect from the forenoon of 10th October 2005 for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

P T. BHUTIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 19th October 2005

No.13017/27/2005-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Punjab and Ministry of Home Affairs as the cadre controlling authority for the AGMUT cadre, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Smt. Raji P. Srivastava, IAS (RR : 92) from IAS Cadre of Punjab to the IAS Cadre of AGMUT for a period of three years for appointment as Joint Secretary (Finance), under the Chandigarh Administration. The deputation will take effect from the date Smt. Raji P. Srivastava, IAS Joins the AGMUT cadre.

K. K SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 26th October 2005

No. 14013/02/2005-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service

(Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Gujarat, with effect from the date shown against him.

Sl. No	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri P. B. Patni	1994	26.11.2000

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th October 2005

No. 5/PF/2005.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Singh Pundir, as First PA in the personal staff of Minister of state for External Affairs (Shri Rao Inderjit Singh) with effect from 17th May, 2005. The appointment of Shri Rajesh Singh Pundir will be at the discretion of and co-terminus with the Minister of State for External Affairs (Shri Rao Inderjit Singh).

2. Shri Rajesh Singh Pundir joined duty as First PA in the Office of the Minister of State for External Affairs on the afternoon of 17th May, 2005.

RAJESH LAL, Administrative Officer (PF)

New Delhi, the 26th September 2005

No. Q/PA-I/47/2005.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-III of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the Service with effect from the forenoon of 1st September, 2005.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Smt. Parbati Sen Vyas.	Grade-III of IFS	Grade-II of IFS

2. On promotion to Grade-II of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-III of IFS on the forenoon of 1st September, 2005 and assumed charge of the post in Grade-II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

The 30th September 2005

No. Q/PA-I/48/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri Himachal Som, Ambassador, Embassy of India, Rome, retired from Grade I of the Indian Foreign Service on the afternoon of September 30, 2005.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-1/49/2005.—On attaining the age of superannuation, Shri T. D. Aggarwal, Counsellor in Embassy of India, Brussels, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of September 30, 2005.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

The 3rd October 2005

No. Q/PA-1/50/2003—Shri J.R. Sharma, an officer of Grade IV of Indian Foreign Service has retired voluntary from Government Service under Rule 48 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 with effect from the forenoon of 30th September, 2005.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 4th October 2005

No. Q/PA-1/51/2005—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of 1st October, 2005 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Shri R.K. Bhatia	Grade-II of IFS	Grade-I of IFS

2. On promotion to Grade-I of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-II of IFS on the forenoon of 1st October, 2005 and assumed charge of the post in Grade-I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

The 10th October 2005

No. Q/PA-1/52/2005—The President is pleased to appoint the following officer presently in Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of 06th September, 2005 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Shri A.M. Gondane	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-IV of IFS on the forenoon of 06 September 2005 and assumed charge of the post in Grade-III of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

O/o THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 10th October 2005

No. D-III/460/CF-47/2004—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Abdul Latheef

Gasim, as Consul of the Republic of Maldives in Thiruvananthapuram with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Abdul Latheef Gasim comprises the state of Kerala.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

The 24th October 2005

No. D-III/460/CF-30/2005—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Surendra Ratilal Parikh as Honorary Consul of the Republic of Zambia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Surendra Ratilal Parikh comprises the state of Maharashtra.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 20th October 2005

No. /2005. (FNo. A-19013/05/2005-Ad. 1A).—The President is pleased to appoint Shri V. B. Sharma, a regular Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Home Affairs who was working as PPS on in-situ basis in that Ministry as PPS on an ad-hoc basis in the Ministry of Finance, Department of Revenue w.e.f. 30.09.2005 to 31.12.2005. The promotion of Shri V. B. Sharma as PPS is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue indefinitely or to claim seniority in that post.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 10th August 2005

No. 8/4/2003-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri M. S. Rehman, Sr. TIA/KEI of Northern Railway, New Delhi to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Lucknow on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 for a period of three years w.e.f. 27th July, 2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. 8/4/2003-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri P. K. Bhui, Jr. Director, Ministry of Defence, to the post of Secretary/Registrar in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750—16,500 for a period of three years w.e.f. 30th March, 2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 4th October 2005

No. 8/4/2003-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri D. K. Khanna, Dy. Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, New Delhi, to the post of Secretary/Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Chandigarh on deputation basis in the pay scale of Rs. 12,750-16,500 for a period of three years w.e.f. 29th August, 2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. 8/4/2003-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri J. K. Arora, Chief Manager, Punjab National Bank, to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-II, Delhi on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 for a period of three years w.e.f. 22nd August, 2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. 8/4/2003-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Udai Pal Singh, Section Officer, Debts Recovery Appellate Tribunal, New Delhi, to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000—15,200 for a period of three years w.e.f. 8th September, 2005 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 31st October 2005

No. PFCA(242) Admn I.—On attaining the age of superannuation, Shri K. C. Kohli, an Officer of the Indian Cost Accounts Service, presently Director (Cost) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Stands retired from Government Service with effect from the afternoon of the 31st October, 2005.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 8th November 2005

No. A-32014/2/2005-Ad.-I.—In continuation of this Department's Notification's of even number dated 3rd, 5th & 7th October, 2005 respectively, regarding the appointment of the Section Officers of CSS in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- is subject to the following condition :-

“The appointment of the persons to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.”

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 4th October 2005

No. 28/2005 (No.A-42011/6/2003-E.I).—Consequent upon their nomination by the Department of Personnel & Training for making addition to the Select List of Section Officers' Grade for the year 2003, on the basis of Combined Limited Departmental Examination, 2003, the President is pleased to appoint the following permanent Assistants to the grade of Section Officer in the cadre of Department of Commerce w.e.f dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Officer	Rank No.	Posted to	Date of Appointment
1.	Sh. Sankha Roy	4th	Commerce	22.09.2005(FN)
2.	Sh. Neeraj Sachdeva	8th	Commerce	21.09.2005(AN)
3.	Sh. J. Sriram Murty	24th	Commerce	23.09.2005(FN)
4.	Sh. Pramod Kumar Sahoo	47th	M/o.Textiles	21.09.2005(FN)
5.	Sh. V. Sridhar	101st	DGFT	21.09.2005(FN)
6.	Sh. Subhabrata Karmakar	109th	Commerce	23.09.2005(FN)
7.	Sh. Inder Jeet	211th	M/o. Textiles	23.09.2005(FN)
8.	Sh. Kuldeep Kumar	214th	DGFT	w.e.f. the date he assumes charge

2. The appointment of above Officers to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

ANURAG SAXENA, Director

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 24th October 2005

No.61/2005 (A-19011/12/2000-Estt).—Consequent upon completion of his tenure of Central deputation as Joint Secretary in the Ministry of Textiles, Shri Sudhir Bhargava, IAS (RJ:79) has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 24th October 2005 and his services are placed at the disposal of Government of Rajasthan.

CHANDER BHAN, Director

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 6th October 2005

No. 3/15/2005-Estt.—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of

Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training's communication no. 17/2/2005-EO (SM-I) dated 23rd August 2005, Ms. Ajita Bajpai Pande, IAS (MP:81) is appointed as Joint Secretary, Ministry of Mines with effect from the forenoon of 6th October, 2005, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

VINOD KUMAR, Director

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 28th October 2005

No. 12/13/2003-ASO.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 14th January, 2004, the President is pleased to extend the tenure of Shri Harbhajan Singh, IAS (UP:83), Joint Secretary and Financial Adviser in Ministry of Coal for the period from 8.11.2005 to 31.01.2006.

A. K. JYOTISHI, Director

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 27th October 2005

No. 2-64/2001-FE.—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Malabika Ray, Scientist 'C' on promotion, to the post of Scientist 'D' in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/-, under Flexible Complementing Scheme, in ICFRE, Dehradun, w.e.f. 01.08.2005, till further orders.

2. The Lower post of Scientist 'C', in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-, vacated by Dr. (Mrs.) Malabika Ray on her promotion, shall stand abolished from the date of her promotion to the post of Scientific 'D'.

J. L. CHUGH, Director

New Delhi-110003, the 31st October 2005

No. A-11011/1/2003-P.I.—Consequent upon his selection for the post of Scientist 'F' in the Ministry of Environment & Forests on deputation basis, the President is pleased to appoint Dr. V. K. Minocha as Scientist 'F' (Scale of pay Rs. 16,400-450-20,000/-) for a period of 3 years w.e.f. 29.9.2005 (FN) until further orders. The terms and conditions of his appointment will be governed by DoPT's O.M. No. 2/29/91-Estt.(Pay-II) dated 05.01.94.

KABINDRA JOSHI, Under Secy.

The 7th November 2005

No. A-19011/1/2005-P.I.—Consequent upon his selection for the post of Scientist 'F' in the Ministry of Environment & Forests on deputation basis, the President is pleased to appoint Shri Yogesh Sharma as Scientist 'F' (Scale of pay Rs. 16,400-450-20,000/-) for a period of 3 years w.e.f. 12.09.2005 (AN) until further orders. The terms and conditions of his

appointment will be governed by DoPT's O.M. No. 2/29/91-Estt.(Pay-II) dated 05.01.94.

2. This supersedes Ministry of Environment and Forests, National River Conservation Directorate Notification No. A-12012/3/90 (GPD)-NCRD-I, dated 7.10.2005.

KABINDRA JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPTT. OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 24th October 2005

No. A.11018/2/2004-Admn.I/Estt.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Phool Singh, Assistant Library & Information Officer and at present holding the post of Assistant Director (Library) in the National Medical Library, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare on ad-hoc basis, to the post of Assistant Director (Training) in the National Medical Library, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- on regular basis with effect from 23.09.2005 (F.N.)

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 24th October 2005

No. A. 11013/01/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri D.S. Moorthy as Officer on Special Duty in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 in the personal staff on Minister of Health & Family Welfare (Dr. Anbumani Ramadoss) in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 8th August, 2005.

The appointment of Shri D.S. Moorthy as Officer on Special Duty will be on co-terminus basis or for so long as desired by the Minister or until further orders, whichever is earlier.

P.R.A. NAIR, Under Secy.

The 27th October 2005

No. A-32013/2/2005-Estt. I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select Lists for the year 1996 & 1997 for appointment to the Selection grade of CSS vide DOPT's OM 4/10/2005-CS.I dated 15th September, 2005, the following Grade-I officers of the CSS are hereby appointed to Selection grade of the Central Sectt. Service on regular basis with effect from the date shown against them :—

1. Shri Amar Lal Makhijani (SL-1996) w.e.f. 01.07.1996
2. Shri Shiv Bhagwan (SL-1996) „ 01.07.1996
3. Shri D.R. Shanna (SL-1997) „ 01.07.1997
4. Shri U.C. Nangia (SL-1997) „ 01.07.1997

P.R.A. NAIR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 27th October 2005

No. A. 12025/167/2004-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nithin M. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from forenoon of 24.08.2005 until further orders. Dr. Nithin M. is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Trivandrum with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 07th November 2005

No. 12023/3/2002-E.V. (Vol. II)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Singh, Assistant Agriculture Research Officer (Agronomy), Directorate of Agriculture, Government of Rajasthan as Assistant Soil Conservation Officer (NRM) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in NRM Division of Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis w.e.f. the forenoon of 17th October 2005, for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 28th October 2005

No. A. 12025/5/2004-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Gupta as Assistant Commissioner (Dairy Development) on promotion in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from the forenoon of 21st October 2005 in Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th September 2005

No. A-12022/01/2005-Estt. I.—The President is pleased to appoint the following as Section Officers in the Ministry of Rural Development in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the dates mentioned against their

names, until further orders, on the basis of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1.	Shri Anil Kumar Jha	14.09.2005 (FN)
2.	Smt. E. Rita	14.09.2005 (FN)
3.	Shri Shivakant Kumar	21.09.2005 (FN)
4.	Shri Krishna Prakash Tewari	21.09.2005 (FN)
5.	Shri Shree Bhagwan Pandey	21.09.2005 (FN)
6.	Shri Bipin Kumar Hembrom	21.09.2005 (FN)

2. The appointment of these persons to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

3. This supersedes this Ministry's earlier Notification of even number dated 28.09.2005.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

The 24th October 2005

No. A-32013/1/95-Estt. II.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre in this Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 04.10.2005 (FN).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

No. A-32013/1/95-Estt. II.—The President is pleased to appoint Shri P.S. Prasanna Kumar as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre in this Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 07.10.2005 (FN).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

The 25th October 2005

No. A-32013/2/2005-Estt. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's office memorandum No. 4/10/2005-CS.I(i), dated 15.9.2005 and order No. 4/12/2001-CS. I, dated 13.10.2005, the following Grade-I officers of CSS working as Deputy Secretary (ad-hoc) are included in the Select List of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) as indicated against each :—

Sl. No.	Name of the officer	Select List	Effective date for inclusion in the Select List
1.	Ms. Gayatri Sharma	1996	01.07.1996
2.	Shri V.J. Menon	1997	01.07.1997

2. The President is accordingly pleased to appoint the above mentioned officers as Deputy Secretary on regular

basis in CSS cadre in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 with effect from the dates as mentioned against each.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)**

New Delhi, the 3rd October 2005

No. A. 32011/10/2005-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers for the year 2003 on the basis of the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003, the President is pleased to appoint the following permanent Grade IV Officers (Assistants) of the CSS cadre as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the CSS cadre of the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) with effect from 20th September, 2005 :

Sl. No.	Name
1.	Shri Pankaj Kumar
2.	Shri Supriya Ranjan Datta
3.	Shri Rajesh Kumar
4.	Shri Parveen Jargar
5.	Shri Pradeep Kumar Srivastava
6.	Shri Sami Ahmad Khan
7.	Shri Abhimanyu Sahoo
8.	Shri Nandan N.
9.	Shri Azizuddin

2. The appointment of these persons to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition(C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

K. K. MISHRA, Under Secy.

No. A. 32011/10/2005-E.I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers for the year 2003 on the basis of the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003, Shri Kundan Kumar, Assistant of the CSS cadre of UPSC is appointed as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) with effect from 28th September, 2005.

2. The appointment of Shri Kundan Kumar to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome

of the Writ Petition(C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

K. K. MISHRA, Under Secy.

No. A. 32011/10/2005-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers for the year 2003 on the basis of the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003, the President is pleased to appoint the following permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS cadre as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the CSS cadre of the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) with effect from 20th September, 2005 :

Sl. No.	Name
1.	Ms. Neha Mehra
2.	Ms. Sneh Lata

2. The appointment of these officials to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition(C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

K. K. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 20th October 2005

F. No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In partial modification of this Ministry's notification No. 16011/2/2002-SCD-IV dated 19.07.2002 the President is pleased to appoint Shri Sewa Ram, Joint Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment as Official Director on the Board of Directors of National Scheduled Caste Finance and Development Corporation (NSFDC), with immediate effect and till further orders, in place of Shri P. Narayan Murthy.

HASIB AHMAD, Director

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY**

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 25th October 2005

No. A-39013/1/2005-Admn-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri P. Shiva Prasad Reddy, Emp-Code-4209, from the post of Scientist 'D' NIC Karnataka State Unit, Bangalore from the afternoon of 30th September 2005 and he is relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I.)

New Delhi-110 003, the 31st October 2005

No. 3690/NIC/2005-P&E-II.—The Director General, NIC in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 removes Sh. N. Ramesh, Scientific Officer/Engineer 'SB' (Emp. Code No. 3690) from service in the National Informatics Centre, Department of Information Technology w.e.f. 01.09.2005. His period of absence from 07.10.2000 to 31.08.2005 will be treated as dies-non under FR-17.

P. S. PILLAI, Dy. Director (P&E-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 31st October 2005

No. E(O)III-2005/RN/14.—Consequent upon his permanent absorption in IRCON, Shri Sudhir Mathur, IRAS, has resigned from Railway service with effect from 31.10.2005(AN).

2. This is in supersession of Board's Notification No. E(O) III/2005/RN/14, dated 06.09.2005.

M. K. AGARWAL, Secy., Rly. Board &
Ex-Officio Addl. Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 28th October 2005

No. 24/2005. F. No. A-38012/1/2005-Adm. I.—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, Central Electricity Authority retired from service

under the Government of India in the afternoon of 30th September, 2005 on attaining the age of superannuation :—

S. No.	Name of the Officer	Designation
1.	Shri J. K. Yerra	Chief Engineer
2.	Shri S. C. Mittal	Assistant Director Grade-I

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th October 2005

No. A-38011/2/2005-IIS.—On attaining the age of superannuation, the following JAG/JAG (NFSG)/SAG/Selection Grade/Higher grade officers of IIS Group 'A' retired from Government service from the date mentioned against their names :

Sl. No.	Name of the officer	Post held	Office	IRLA No.	Date of retirement
1	2	3	4	5	6
	Shri/Smt.				
1.	Shakuntala Mahawar	PIO	PIB, New Delhi	5442	31.07.2005 (A.N.)
2.	Bairaj, Suri	Addl. PIO	PIB, New Delhi	4972	31.07.2005 (A.N.)
3.	R.P.S. Varma	Director	RE&TD New Delhi	7767	31.07.2005 (A.N.)
4.	R.B. Vishwakarma	Joint Director	NSD: AIR, New Delhi	8092	31.07.2005 (A.N.)
5.	R.R. Rao	DPIO	PIB, Hyderabad	8167	31.08.2005 (A.N.)

2. Each of the officers relinquished the charge of the post held by them in their respective office on the date indicated against their name.

V. K. SEKHRI, Under Secy.